



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 अग्रहायण 1946 (श10)

(सं0 पटना 1204) पटना, शुक्रवार, 13 दिसम्बर 2024

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

13 दिसम्बर 2024

एस०ओ० 503 दिनांक 13 दिसम्बर 2024—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 121 दिनांक 09.07.2021, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक सं० 599 दिनांक 09.07.2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था को, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत देय विलंब फीस की राशि को, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनके लिए अधिनियम की धारा 51 के प्रावधानों के तहत स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है, माह जून, 2021 से, प्ररूप जीएसटी आर-7 में नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत करने की विफलता के लिए, उस अवधि के लिए जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, जो कि पच्चीस रुपये प्रतिदिन से अधिक है का अधित्यजन करते हैं:

परंतु यह कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत कुल देय विलंब फीस कि राशि, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए, माह जून, 2021 से, नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटी आर-7 में विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए, जो एक हजार रुपये से अधिक है, का अधित्यजन किया जाता है।

परंतु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत कुल देय विलंब फीस कि राशि, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के किसी मास के प्ररूप जीएसटी आर-7 में नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए, जब उक्त मास में स्रोत पर कटौती किए गए राज्य कर की कुल रकम शून्य है, का अधित्यजन किया जाता है।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2024 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-20) 5436)]  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
संजय कुमार सिंह,  
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

13 दिसम्बर 2024

एस०ओ० 503 दिनांक 13 दिसम्बर 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-20) 5436)]  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
संजय कुमार सिंह,  
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

### *The 13<sup>th</sup> December 2024*

**S.O. 503 Dated 13<sup>th</sup> December 2024**—Inexercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), and in supersession of the notification no. S.O. 121 Dated 09.07.2021, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide no. 599, dated 09.07.2021, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable under section 47 of the said Act by any registered person, required to deduct tax at source under the provisions of section 51 of the said Act, for failure to furnish the return in FORM GSTR-7 for the month of June, 2021 onwards, by the due date, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act by such registered person for failure to furnish the return in FORM GSTR-7 for the month of June, 2021 onwards, by the due date, shall stand waived which is in excess of an amount of one thousand rupees:

Provided further that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act by the registered person, who fails to furnish the return in FORM GSTR-7 for a month by the due date, where the total amount of state tax deducted at source in the said month is nil, shall stand waived.

2. This notification shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of November, 2024.

[(File No. Bikrikar/GST/vividh-21/2017 (Part-20) 5436)]  
By the order of Governor of Bihar,  
Sanjay Kumar Singh,  
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1204-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>